



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 कार्तिक 1932 (श0)
(सं0 पटना 738) पटना, बुधवार, 27 अक्टूबर 2010

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

21 अक्टूबर 2010

सं० निग/सारा-4-(पथ)-आरोप-105/10-14765(एस)— श्री सुरेन्द्र कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल खगड़िया सम्प्रति सहायक अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, के०नि०सं० पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा पथ प्रमंडल खगड़िया के पदस्थापनकाल में खगड़िया-मुंगेरघाट लिंक पथ के कि०मी० 2 (अंश) में विभिन्न स्थानों पर कराए गए बी०एम० कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट ओवर साईज पाने एवं उक्त कार्य में प्रयुक्त विटुमेन की मात्रा औसत से कम पाये जाने के लिए श्री कुमार से विभागीय पत्रांक 12872 (ई) अनु०, दिनांक 11 नवम्बर 2009 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री सुरेन्द्र कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल खगड़िया सम्प्रति सहायक अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, के०नि०सं० पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक शून्य, दिनांक 09 दिसम्बर 2009 के विभागीय समीक्षोपरान्त बी०यू०एस०जी० में 50 प्रतिशत कम विटुमेन प्रयोग करने के लिए कि श्री कुमार को दोषी पाया गया।

इस आलोक में सुरेन्द्र कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल खगड़िया सम्प्रति सहायक अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, के०नि०सं० पथ निर्माण विभाग, पटना के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए निम्न दंड संसूचित किया जाता है :-

- (i) एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
- (ii) निन्दन। (आरोप वर्ष, 2007)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 738-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>